



3 Haryana Girls Bn NCC Dayanand College, Hisar Session: 2020-2021

Yoga Day Celebration (21.06.2020)

Our cadets celebrated International Yoga Day and performed yoga poses. They learned about benefits and importance of yoga.



Tree plantation (15/07/2020)

Our Cadets planted trees and committed to take care of the planted saplings. Cadets while planting trees



डीएन कॉलेज के कैडेट्स ने लगाए पौधे

हरियाणा/23 जुलाई/रिपोर्टर

एचएनर महाविद्यालय की तृतीय हरियाणा गार्स बटालियन की आर्मी विंग की एनसीसी कैडेट्स ने पौधारोपण परियोजना का आयोजन किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने कैडेट्स को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए उनसे ऑनलाईन बातचीत की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से ही मानव का अस्तित्व संभव है। यदि पेड़-पौधे समाप्त हो जाएंगे तो मनुष्य का जीवित रहना भी असंभव हो जाएगा। उन्होंने कैडेट्स को ऐसे कार्य भविष्य में करते रहने के लिए प्रेरित किया। एनसीसी अधिकारी डॉ. नीरू खाता ने भी कैडेट्स को समझाया कि कैसे कोरोना महामारी



के दौरान हीसला रखते हुए सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कैडेट्स को



अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कैडेट्स के



साथ-साथ उनके परिवारों ने भी पौधारोपण अभियान में पूर्ण सहयोग दिया।

संस्थानों को प्रेरित किया। एनसीसी अधिकारी डॉ. नीरू खाता ने भी कैडेट्स को समझाया कि कैसे कोरोना महामारी

के दौरान हीसला रखते हुए सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कैडेट्स को

अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कैडेट्स के

साथ-साथ उनके परिवारों ने भी पौधारोपण अभियान में पूर्ण सहयोग दिया।



CADET- JYOTI

ENROLLMENT NO.- HAR/19/SWA/257251
FROM 3 HAR GR BN NCC, HISAR
FROM DAYANAND COLLEGE, HISAR



International Yoga Day – June 21, 2021

Celebrated on June 21, International Yoga Day celebrates the physical and spiritual prowess that yoga has brought to the world stage. While it is an important source of exercise and healthy activity millions join in and practice on a daily basis. For many, these routines are a way to connect the body, mind and soul in a way that has existed for centuries.



Article Competition (17.07.2020)

An article writing contest was organised on importance of yoga, cadets participated in it and wrote these beautiful articles.

Importance of yoga

By Khushboo



3HAR/19/SWA/257252
3 HAR GIRL'S BATTALION
NCC HISAR



Dayanand college, Hisar

Yoga is a set of spiritual, physical and mental practices that originated in ancient India. The word itself means 'yog' or union of the physical with the spiritual within oneself. It also symbolises the union of individual consciousness with that of the Universal Consciousness, indicating a perfect harmony between the mind and body, human & nature.

Yoga combines physical exercises, poses (asanas), meditation, breathing exercises and techniques.




Some researchers believe that yoga originated during the Indus Valley Civilization period, others say it originated from the pre-Vedic age in eastern India. From then to today, time has changed but not the importance of yoga. Yoga is equally important in today's life as well. Because it is not only a kind of physical exercise that keeps our body fit, it also keeps our mind free of stress and healthy. In today's life people encounter more mental health issues so it became very important to practice yoga daily

Yoga not only prevent us from disease but it also help to cure many disease. If medicines have failed you, yoga might not

Online Quiz Aatma nirbhar Bharat (29-07-2020 to 10-08-2020)


A quiz competition was organised by the ministry of human resource development. Our cadets participated in this quiz and received these certificates



Certificate of Participation

Ministry of Human Resource Development & MyGov congratulate
Khushboo

for successfully completing the Kargil Vijay Diwas Quiz.
We salute your effort. Keep participating...!



Certificate of Participation

Office of the Registrar General & Census Commissioner & MyGov congratulate
Kiran


for successfully completing the Quiz - "Do you know your Census?"
We salute your effort. Keep participating...!

Sandhya Singh
Deputy Registrar General
ORGI, Ministry of Home Affairs

Cadets celebrating World AIDS day 1st December, 2020

Mehandi competition was organised by the cadets of 3HAR GIRLS BN NCC HISAR on AIDS day . Many cadets participated in the competition delightfully.





Fight
AIDS



Not
The
People
With
AIDS

डीएन कॉलेज में एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम



हिसार/01 दिसंबर/रिपोर्टर

विश्व एड्स दिवस पर दयानन्द महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब व एनसीसी आर्मी विंग गर्ल्स कैडेट्स के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मेहन्दी, कार्ट मेकिंग आदि गतिविधियों के माध्यम से एड्स के दुष्परिणामों के बारे में बताया व इससे बचने के उपाय भी बताये। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा एक रैली निकाली गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. विक्रमजीत सिंह ने कहा कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है। उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में लोग इससे ग्रस्त होते हैं। इस अवसर पर डॉ. अनूप परमार, रेड रिबन क्लब की इन्वार्ज डॉ. अर्चना मलिक, एनसीसी अधिकारी डॉ. नीरू बाला, सदस्य डॉ. सुरेन्द्र बिश्नोई, डॉ. आदित्य कुमार, सुशील राजपाल आदि उपस्थित थे।

NABHCHOR

Cleanliness awareness campaign 17th December, 2020

A cleanliness awareness campaign was organised in DN college, Hisar by the cadets of 3HAR GIRLS BN NCC HISAR. Cadets participated with enthusiasm and cleaned the college campus and also spread awareness. Cadets were taught about the benefits of clean surrounding area.



Hisar, Haryana, India

Chandulal Anglo Vedic High School, Balsamand Rd, Bhamashah
Nagar, Hisar, Haryana 125011, India

Lat N 29° 9' 29.0196"


Long E 75° 42' 56.0844"

17/12/20 12:45 PM





*Cadets
created
posters for
the
campaign*

Clean surroundings and healthy people,



Can make a country wealthy

Cadets cleaning ground



Cadets on ground



Enrollment of 1st year students in NCC 22nd December, 2020



Various activities were performed by students



Students while running

Proceeding towards final selection



Corona test of cadets

All the cadets of Dayanand college, Hisar were tested for corona virus on 13th February ,2021 .
Fortunately, all the cadets were reported negative for corona





*Medical expertise at college's
hansraj hall*



Cadets At Annual Training Camp (ATC)

17 to 19 February, 2021 for 2nd year cadets

17 to 21 February, 2021 for final year cadets

All the cadets participated in the ATC (2021) which was held at GJU(Guru Jambheshwar University), Hisar. This was an up-down camp of 3 days for 2nd year cadets and of 5 days for final year cadets. Cadets learned various things and participated in many activities.



Cadets learning reading the degrees of a compass



Cadets learned about compass , it's various parts and how to use it . Cadets also learned about service protector and maps



All the cadets of 3 Haryana girls
NCC, Hisar at University
auditorium during the camp





*Learning
about
weapons,
their parts
and how to
open them
at Annual
Training
Camp*



Blood donation is a work of pride

During ATC at gju, a blood donation camp was organised in which many of our cadets participated and donated their blood.

(20th February, 2020)



Cadets active participation in college seminar on India's freedom struggle 12th March, 2020





ना कोई चिंता
ना किसी की फिकर

जब सुनते है
How's the Josh

हम कहते है....
High sir ✨

A cadet's soul always lie in the ground. Because he becomes a cadet only after a long practice in that ground. Our Cadets while practicing drill and attending their regular classes.





Learning drill as well as theory. Both are equally important for an NCC cadet.

A step forward to AMRIT MAHOTSAV (celebration of 75 years of independence) 3 Haryana Girl's BN took Cadets to clean statue of Martyr at Mirzapur(12.03.2021).

On this occasion our Cadets cleaned the statue and paid respect to martyrs by flowers



Our Cadets cleaned statue of one of the great warrior of 1971 war, Martyr Lt. HAWA SINGH on his death anniversary. This was really a proud moment for our Cadets to perform this activity(12.03.2021)



Our Cadets in the celebration of end of cycle rally which was organised to revive the martyred soldiers of Hisar district (27/03/2021)






On this occasion Colonel DK Nehra motivated cadets to know more about these brave soldiers and to protect their identity from losing

It was really a great experience to be a part of this celebration (27/03/2021)



NCC experience (DGNCC site) (15-20 May)

Our Cadets wrote about their experience in NCC and uploaded these articles on DGNCC website.



6th May, 2021

This corona time was very hard and difficult but still good things were present there and we were a part of such one webinar which was organised to aware people about coronavirus and the protocols to follow during this time.

Our cadets while participating in the webinar:

The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a grid of 25 video thumbnails shows participants, many holding up hand-drawn posters. The bottom of the screen shows Zoom controls like 'Mute', 'Start Video', 'Security', 'Participants', 'Chat', 'Share Screen', 'Raise Hand', 'Pause/Stop Recording', and 'More'. On the right, a 'Participants (146)' list is visible, showing names and icons for various attendees.



आपदा की घड़ी से सबको मिलकर निपटना होगा-सुखविंदर सिंह

पाठकपक्ष न्यूज
हिसार, 6 मई : देश और विश्व इस समय कोरोना आपदा से गुजर रहा है। ऐसे विकट समय में देश के प्रत्येक नागरिक का एक विशिष्ट कर्तव्य बनता है। इस आपदा की घड़ी से सबको मिलकर निपटना होगा। कोरोना वायरस एक अदृश्य शत्रु है उससे उससे सावधानी से ही लड़ा जा सकता है। ऐसे समय में एनएसएस और एनसीसी के वालंटियर की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन विद्यार्थियों को प्रबुद्ध नागरिक के तौर पर देखा जाता है। यह जन जागरण का समय है जन जागरण के माध्यम से ही इस आपदा से निपटा जा सकता है। एनएसएस और एनसीसी के विद्यार्थी समाज में एक जागृति पैदा कर सकते हैं। आपको कोरोना महामारी के विषय में फैले रहे भ्रम को लेकर समाज का मार्गदर्शन करना होगा। वैक्सिनेशन को लेकर समाज को प्रेरित करना होगा यही एनएसएस और एनसीसी का मोटो है कि जब भी अवसर मिले समाज सेवा देश सेवा का कार्य बढ़-चढ़कर करें। ये



विचार आज दयानंद महाविद्यालय हिसार में एनसीसी एनएसएस की ओर से आयोजित एक वेबीनार में डॉक्टर सुखविंदर सिंह डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन हरियाणा ने व्यक्त किए। डॉक्टर सिंह इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। विशिष्ट अतिथि डॉ. अनिल भांखर, समन्वयक, एनएसएस गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय हिसार ने वालंटियर को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों का यह वर्ग समाज सेवा को विशेष रूप से समर्पित होता है। यह माना जाता है कि इन विद्यार्थियों में कर्तव्य बोध पूर्ण रूप से होता है। आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इस महामारी के वक्त में अपना सर्वस्व योगदान देने या प्रयास करें। एनसीसी एनएसएस के वालंटियर ने वेबीनार में पोस्टरों के माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूक किया। विद्यार्थियों ने अपने पोस्टरों में मास्क पहनने, टीकाकरण करवाने, स्वच्छता का ध्यान रखना, सामाजिक दूरी का पालन करने का संदेश दिया। इस अवसर पर डॉ. सुरेंद्र बिश्नोई, डॉ. हेमंत शर्मा, डॉक्टर नीरू बाला, डॉक्टर शर्मिला गुणपाल, प्रो. मीनाक्षी चौहान प्रो सुरेश यादव उपस्थित थे।


Our Cadets showing posters they draw to aware people about corona safety protocols.



Our Cadets actively participated in Young Warrior movement

(A nationwide movement initiated by CBSE to combat Covid-19 by inspiring youths to motivate others) and posted it to their social media accounts to motivate others youths too.

(4th June, 2021)



I am a #young warrior

6

I am a # young warrior

I am a #YoungWarrior

1

I am a #YoungWarrior

13